


# R

## RECANWEY

### For Your Health and Beauty



## स्वस्थ्य भारत अभियान

जानें

समझें

बताएं

## Nutridose-20



**Nutridose-20** एक कम्पलीट न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट है जिसमें अति प्रभावशाली २० जड़ी-बूटियां डाली गई हैं, जो इंसान के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ अनेकों प्रकार की बिमारियों की रोकथाम करने में भी सहायक है।

## कंटकारी Kantkari



कंटकारी भूख बढ़ाने में मदद करती है। इसकी जड़ भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। श्वेत कंटकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, कुमिरोधी; सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्रकृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है।

## गंभारी Gambhari



ज्यादा प्यास लगने की समस्या को करे दूर, मूत्र रोग से दिलाए राहत, नाखून टूटने से बचाए, बालों की समस्या को करे दूर, सिर दर्द से भी राहत, बुखार की समस्या को करे दूर, घाव को करे ठीक, गठिया की समस्या को करे दूर।

## अकाई बेरी Acai Berry



अकाई बेरी जिसका सेवन यंग और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए किया जाता है। बल्कि ये विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं।

## बाला Bala



बाला हड्डियों की मजबूती, मसल्स और जोड़ों की मजबूती, वीर्य बढ़ाने, मूत्राशय में जलन को ठीक करने तथा हृदय संबंधी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। बाला एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है।

## मंजिष्ठा Manjistha



मंजिष्ठा को त्वचा की खूबसूरती के लिए उपयोगी जड़ी-बूटी माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मंजिष्ठा चहरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ चहरे से संबंधित सभी बीमारियों को दूर करती है। खासकर झाड़ियां और मुहांसे के लिए।

## ब्लूबेरी Blue Berry



यह एक एंटीऑक्सिडेंट का काम करता है। यह कैसर रोधी गतिविधि करता है। इसमें शरीर के वजन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। यह मधुमेह के मरीजों के लिए लाभदायक होता है। ब्लड शुगर को कम करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा माना जाता है।

## अर्जुन Arjuna



अर्जुन की छाल सेवन करने से शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, इनका सेवन हृदय ब्लॉकेज की समस्या में भी प्रभावी होता है। अर्जुन की छाल में टैनिन नामक एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जो शरीर में एंटीऑक्सिडेंट गुणों को बढ़ाता है।

## गैनोडर्मा Ganoderma



गैनोडर्मा मशरूम से हृदय रोग, किडनी व कैसर के साथ ही करीब १२ से १५ बीमारियों से राहत मिलेगी। इसमें पोलिक एसिड होता जो खून की कमी को दूर करता है। मधुमेह की बीमारी व गठिया रोग को दूर करता है। ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है।

## रेस्पबेरी Resp Berry



कैसर में फायदेमंद, मधुमेह में फायदेमंद, आंखों के लिए फायदेमंद, पाचन के लिए फायदेमंद, हृदय के लिए फायदेमंद, गठिया के लिए फायदेमंद, फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद।

## ब्लैक कुररेंट Black Current



विटामिन युक्त ब्लैक कुररेंट, इम्यून सिस्टम को करे बूस्ट मांसपेशियों में दर्द व सूजन में कमी, दिल को रखे दुरुस्त, स्किन को सुधारती है ब्लैक कुररेंट, आंखों की सेहत को रखे दुरुस्त।

## कोकम Kokum



कोकम एक बहुत ही फायदेमंद फल है जिसे खाने से वजन कम होता है इम्यूनिटी बढ़ती है ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और तो और हार्ट भी हेल्दी रहता है। तो इस फल को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

## जिंको बिलोबा Ginkgo Biloba



कामेच्छा बढ़ाए, चेहरे की समस्याओं को करे दूर करे, दिल को रखे स्वस्थ, ग्लूकोमा से बचाए, आंखों को रखे स्वस्थ, तनाव और अवसाद के लिए रामबाण।

## कुचला Kuchla



कुचला में एंटी इन्फ्लामेट्री गुण पाया जाता है, जो अस्थमा, गठिया और बवासीर जैसी परेशानियों को दूर करने में कारगर है। डायबिटीज को करे कंट्रोल, इन्फ्लूएंजा से करे बचाव, ब्लड सर्कुलेशन को करे कंट्रोल, गठिया रोगियों के लिए लाभकारी, सूजन की परेशानी करे दूर।

## मैंगोस्टीन Mangosteen



प्राकृतिक रूप से पौष्टिक, उच्च एंटीऑक्सिडेंट सामग्री, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मासिक धर्म की परेशानी के लिए जादुई औषधि, वजन घटाने में सहायक, कैसर के विकास को रोकने में मदद करता है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

## वासा Vasa



सिर दर्द से राहत दिलाये, आंखों की सूजन कम करे, मुँह में घाव या सूजन में फायदेमंद। मसूड़ों के दर्द से राहत दिलाता है। दांतों की कैविटी से राहत, दांत दर्द में फायदेमंद, सांस संबंधी रोगों में फायदेमंद, दमा रोग से आराम, खांसी में फायदेमंद, क्षय रोग या तपेदिक में फायदे, आध्मान या अपच में फायदे, जलोदर से राहत दिलाने में।

## सी बकथॉर्न Sea Buckthorn



यौन स्वास्थ्य शीघ्रपतन स्तंभन दोष स्व-मूल्यांकन शुक्राणु बढ़ने में लाभदायक, महिला स्वास्थ्य अनियमित पीरियड्स सफेद पानी पीसीओएस और पीसीओडी बेहतर प्रजनन क्षमता, त्वचा की समस्या मुँहासों का इलाज फंगल इंफेक्शन, बालों की समस्या बालों का विकास बालों में रूसी स्व-मूल्यांकन, पुरानी बीमारी शुगर (डायबिटीज) हृदय रोग, वजन घटाए अनिद्रा की समस्या में लाभदायक।

## साइबेरियन जिनसेंग Siberian Ginseng



जिनसेंग का सेवन करने से पुरुषों में प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद मिलती है। जिनसेंग पर हुई कई अलग-अलग रिसर्च में यह सामने आया है कि इसके सेवन से शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस कम होता है। इससे पुरुषों की पर्सनल लाइफ से संबंधित समस्याओं के इलाज में मदद मिलती है।

## बड़बेरी Elder Berry



बड़बेरी के सेवन से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टरी ब्लॉकेज की परेशानी को दूर करने में बड़बेरी आपकी मदद करता है। एंटी-ऑक्सिडेंट से भरपूर, दर्द को करे दूर, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, हृदय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्किन और बालों के लिए, इसमें कैसर-रोधक गुण होते हैं जो कैसर से लड़ने में मदद करते हैं। शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार है।

## गोखरू Gokhru



गोखरू के गुण अनगिनत है। जिसके कारण ही यह सेहत और रोगों दोनों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। गोखरू वातपित्त, सूजन, दर्द को कम करने में सहायता करने के साथ-साथ, रक्त-पित्त (नाक-कान से खून बहना) से राहत दिलाते वाला, कफ दूर करने वाला, मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभकारी, शक्तिवर्द्धक व स्वादिष्ट होता है।

## शतावरी Shatavari



शारीरिक क्षमता बढ़ाए, शतावरी के इस्तेमाल से पुरुषों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। स्वप्नदोष करे दूर, बढ़ती उम्र का प्रभाव कम करे, लो स्पर्म काउंट बढ़ाए, कैसर से बचाए शतावरी, हैंगओवर कम करे शतावरी, गर्भावस्था और स्तनपान में मददगार, महिलाओं का सेक्स के प्रति रूचि घट रहा है, उनके लिए शतावरी का सेवन लाभकारी हो सकता है।

## Revivelyfe-10



**Revivelyfe-10** एक कम्पलीट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है जिसमें अति प्रभावशाली 10 जड़ी-बूटियां डाली गई हैं, जो इंसान के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ अनेकों प्रकार की बिमारियों की रोकथाम करने में भी सहायक है।

## अश्वगंधा Ashwagandha



अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंधा नींद की गुणवत्ता में सुधार करने, तनाव और चिंता से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, और जोड़ों के दर्द, शारीरिक प्रदर्शन और शूक्राणु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

## सी बकथॉर्न Sea Buckthorn



यौन स्वास्थ्य शीघ्रपतन स्तंभन दोष स्व-मूल्यांकन शूक्राणु बढ़ने में लाभदायक, महिला स्वास्थ्य अनियमित पीरियड्स सफेद पानी पीसीओएस और पीसीओडी बेहतर प्रजनन क्षमता, त्वचा की समस्या मुंहासों का इलाज फंगल इन्फेक्शन, बालों की समस्या बालों का विकास बालों में रूसी स्व-मूल्यांकन, पुरानी बीमारी शुगर (डायबिटीज) हृदय रोग, वजन घटाएं अनिद्रा की समस्या में लाभदायक।

## गिलीय Giliy



इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बुखार का इलाज, पाचन में सुधार करता है, तनाव और थकान को कम करता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है, सूजन कम करता है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है

## शिलाजीत Shilajit



यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे पुरुष यौन शक्ति बढ़ती है। शिलाजीत खाने से सेक्स ड्राइव को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ऊर्जा, स्टेमिना और यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पुरुषों को शिलाजीत का सेवन जरूर करना चाहिए।

## नीम Neem



यह डाइजेशन में सुधार करता है। थकान से राहत देता है। खांसी और प्यास को दूर करता है। घावों को साफ और ठीक करता है। यूटीआई और पेट के कीड़ों के लिए अच्छा है। मतली और उल्टी से राहत देता है। सूजन को कम करता है। यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है।

## त्रिफला Triphala



त्रिफला पाचन को बेहतर बनाता है और भूख बढ़ाता है। यह पेट में लुब्रीकेट की तरह काम करता है, जिससे मल ढीला होता है और पेट से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं, त्रिफला में मौजूद फाइबर पाचन एजेंट होते हैं और कब्ज से लड़ने में मदद करते हैं त्रिफलारोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

## अलोएवेरा Aloevera



इस बहुमुखी पौधे में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, रक्त शर्करा विनियमन में सहायता करते हैं, हाइड्रेशन प्रदान करते हैं, वजन प्रबंधन में सहायता करते हैं, सूजन को कम करते हैं, और भी बहुत कुछ।

## जिनसेंग Ginseng



जिनसेंग थकान दूर करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक पाया गया है। जिनसेंग में मौजूद कुछ घटकों, जैसे पॉलीसैकराइड्स और ऑल्लिगोपेप्टाइड्स, को कोशिकाओं में कम ऑक्सीडेटिव तनाव और अधिक ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़ा गया है, जो थकान को कम करने में मदद कर सकता है।

## मोरिंगा Moringa



पेट के लिए फायदेमंद, मोरिंगा की पत्तियां पाचन के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। अगर आप कब्ज, सूजन, गैस की समस्या से परेशान हैं, तो मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए दवा के रूप में काम कर सकती हैं।

## तुलसी Tulsi



प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, तनाव और चिंता में कमी, हृदय स्वास्थ्य में सुधार पाचन में सुधार, मसूढ़ों और दांतों के स्वास्थ्य में सुधार, सर्दी और जुकाम, मधुमेह, हृदय स्वास्थ्य आदि में फायदेमंद है

# KESH SHINE HAIR OIL

## Complete Hair Growth Solution

INGREDIENTS: Bhringraj, Harad, Bahera, Brahmi, Amla, Jatamansi (Balchhad), Gulab, Tagar, Shikakai, Chandan Surakh, Manjisth, Jamun, Mulethi, Sugandhakokila, Nagar motha, Til oil आदि जड़ीबूटियों को मिलाकर बनाया गया है।

बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसके लगातार इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होने लगती हैं तथा लंबाई बढ़ने लगती है। बालों को मजबूती प्रदान करके बालों को स्वस्थ और घना बनाता है।

इसमें Brahmi एक Antioxidant होने के कारण बालों की जड़ें स्वस्थ बनाता है,

इसकी बालों में मसाज करने से रक्त प्रवाह (Blood Circulation) बढ़ जाता है। इससे रूसी भी हट जाती है।

इसमें Amla होने से इसमें विटामिन सी (Vitamin C), Antioxidant होता है, जिससे बालों के भूरे होने का खतरा भी नहीं होता है।

इसके लगातार इस्तेमाल से दो मुँह वाले बालों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।

## Complete Hair Growth Solution

INGREDIENTS: Ritha, Neem patra, Shikakai, Aloevera, Amla, Sugandhabala, Amar vail, Balchhad, Brahmi, Nimbu, Glycerine आदि जड़ीबूटियों को मिलाकर बनाया गया है।

रीठा (Ritha) बालों को स्वस्थ, घना एवम चमकीला बनाता है,

शिककाई (Shikakai) आपकी सिर की त्वचा के PH स्तर को बनाये रखने में मदद करता है।

नीम (Neem) हमारे बालों में डेंड्रुफ (Dendurf) नहीं होने देता है।

अलोवेरा (Aloevera) बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है।

आमला (Amla) विटामिन सी (Vitamin C) की कमी बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण है और आमला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है।

अमर वेल (Amar Vail) से बालों का गंजापन और बालों का झड़ना रुक जाता है।

नींबू (Lemon) नींबू रूसी, बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को एक प्राकृतिक चमक देता है।

# KESH SHINE HAIR SHAMPOO



## GAS-O HIT CHURN 60GM



पेट की गैस, पेट दर्द, भूख न लगना, एसिडिटी, अपच, कब्ज में मददगार, दिल को स्वस्थ रखता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, आप स्वस्थ और तरो ताजा महसूस करते हैं।

## STAMINA GOLD PILLS



वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करता है और नपुंसकता भी दूर करता है। यह पुरुषों के यौन रोग को दूर करने में, लिंग का ढीलापन, पुराने से पुरानी नामर्दी एवं लिंग में सुस्ती, हस्तमैथुन के कारण लिंग पर नीली नसों का उभर आना, शीघ्रपतन (रुकावट की कमी) स्वपनदोष, जोश की कमी, ठंडापन, सैक्स की इच्छा न होना धातु रोग आदि में अतयंत लाभकारी है।

प्रयोग : 1 गोली सुबह - 1 गोली शाम, (गोली चबाकर लेनी है) गोली चबाकर ऊपर से दुध पिये।

## Vital-C



- विटामिन - सी हमारे शरीर के लिये अति आवश्यक है, यह एक महत्वपूर्ण एन्टीऑक्सीडेंट है।
- यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में मदद करता है और लम्बे समय तक जीवित रहने में मदद करता है।
- यह त्वचा को मुलायम और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बनाए रखता है।
- यह एक ऐसा विटामिन है जिसको शरीर अपने अन्दर रोक कर नहीं रखता है इसलिये इसकी आवश्यकता हमें निरंतर रहती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितना खाया महत्वपूर्ण यह है कि हमने इसे कितना पचाया।
- मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है।
- यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को कम करके एथेरोस्क्लेरोसिस स्ट्रोक और दिल के दौरों की संभावनाओं को कम करता है।
- यह पाचन शक्ति, भूख में सुधार और वजन बढ़ाने में मदद करता है। यह तनाव को कम करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।

# BUSINESS DREAMS



# RECANWEY